



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अगस्त 1936 (श0)

(सं0 पटना 1032) पटना, बुधवार, 17 दिसम्बर 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्
विद्यापति मार्ग, पटना — 800001

अधिसूचना

7 अक्टूबर 2014

सं0 907—श्री शंकर भगवान मंदिर (भुसौलवा मठ) ग्राम—भुसौलवा, पो0—राजपुर, थाना—कैसरिया, अंचल—कल्याणपुर, जिला—पूर्वी चम्पारण पर्षद् के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—1134 है।

इस न्यास के महंत रामसुरत राम जी के स्वर्गवास के बाद पर्षदीय पत्रांक—1004 दिनांक 20.08.93 द्वारा अंचलाधिकारी कल्याणपुर को अस्थाई न्यासधारी बनाया गया था। उन्होंने मठ का प्रभार ग्रहण किया है, इसका कोई सूचना अभिलेख पर नहीं है। अधिनियम में सन् 2007 में हुए संशोधन के आलोक में अस्थाई न्यासधारी का कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष को हो सकता है। इस प्रकार इस न्यास में रिक्ति है। पर्षद् के अध्यक्ष विराट रामायण मंदिर निर्माण कार्य एवं अन्य संबद्ध कार्यों से बराबर मठ पोषक क्षेत्र में जाते रहे हैं, इस क्रम में स्थानीय लोगों ने उनसे इस न्यास के सुचारु संचालन हेतु एक न्यास समिति के गठन का अनुरोध किया एवं न्यास समिति के लिए सदस्यों के नामों का सुझाव दिया।

उपर्युक्त परिस्थिति में न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, सम्यक् संचालन एवं विकास हेतु एक योजना का निरूपण एवं उसके संचालन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं0—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री शंकर भगवान मंदिर (भुसौलवा मठ) ग्राम—भुसौलवा, पो0—राजपुर, थाना—कैसरिया, अंचल—कल्याणपुर, जिला—पूर्वी चम्पारण की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “ श्री शंकर भगवान मंदिर (भुसौलवा मठ) भुसौलवा न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री शंकर भगवान मंदिर (भुसौलवा मठ) भुसौलवा न्यास समिति होगी” जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

- | | | |
|---|---|------------|
| (1) संत शिरोमणी पप्पु बाबा, गुरु नारद बाबा,
भुसौलवा मठ, पो0-राजपुर, थाना-केसरिया | — | अध्यक्ष |
| (2) श्री रामाकांत तिवारी पे0 श्री कृष्णानंद तिवारी,
ग्राम-कैथवलिया, पो0-दरमाहा, थाना-कल्याणपुर | — | सचिव |
| (3) श्री ओम प्रकाश सिंह पे0 श्री लक्ष्मी नारायण सिंह, ग्राम-भुसौलवा | — | कोषाध्यक्ष |
| (4) श्री राजेश्वर सिंह, पे0 श्री शारदानंद सिंह,
ग्राम-भुसौलवा, थाना-केसरिया | — | सदस्य |
| (5) श्री विरेन्द्र सिंह पे0 स्व0 हरिनन्दन प्रसाद सिंह, ग्राम-भुसौलवा | — | सदस्य |
| (6) श्री रामअनुप सिंह पे0 श्री नवल सिंह, ग्राम-भुसौलवा | — | सदस्य |
| (7) श्री अरुण सिंह पे0 स्व0 नारद सिंह, ग्राम-भुसौलवा | — | सदस्य |
| (8) डॉ0 प्रमोद कुमार पटेल पे0 शिवनाथ राय,
ग्राम-विशुनपुर, पो0-दरमाहा, थाना-केसरिया | — | सदस्य |
| (9) श्री देवेन्द्र राम पे0 श्री जोगी राम, ग्राम-भुसौलवा | — | सदस्य |

इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 15.10.2014 से पाँच वर्ष का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यों की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1032-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>